

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं